

COVID-19 से सम्बन्धित नवीनतम सलाह

[NSW Health](#) ने 14 अगस्त 2020 को स्कूलों के लिए COVID-19 से सम्बन्धित नई सलाह जारी की थी। इससे हमारे स्कूलों के संचालन करने के तरीके में परिवर्तन होगा।

- जो बच्चे फ्लू-जैसे लक्षणों के कारण बीमार हों, भले ही ये लक्षण हल्के हों, उन्हें घर पर ही रहना चाहिए। जो बच्चे स्कूल में बीमार होते हैं उन्हें बीमार लोगों के लिए निर्धारित एक अलग कमरे में रखा जाएगा और उन्हें उनके माता-पिता या अभिभावक द्वारा ले जाए जाने के लिए प्रबंध किए जाएंगे।
 - NSW स्वास्थ्य ने यह निवेदन किया है कि स्कूल हर उस व्यक्ति, जो अस्वस्थ है या जिसे चाहे फ्लू-जैसे हल्के लक्षण हैं, को बढ़ावा दे कि वह अपने स्थानीय चिकित्सीय व्यवसायी या किसी [COVID-19 clinics](#) (क्लिनिक) के माध्यम से टेस्ट कराने का प्रबंध करे।
 - जिन विद्यार्थियों और कर्मचारियों को फ्लू-जैसे लक्षण हों, उन्हें स्कूल वापिस आने की अनुमति दिए जाने से पहले उनके लिए यह जरूरी होगा कि वे COVID-19 टेस्ट के नेगेटिव परिणाम की कॉपी प्रदान करें।
- जहाँ संभव हो, विद्यार्थी अपने स्कूल में शिक्षा की सभी गतिविधियों के लिए अपने समूह में रहेंगे (जैसे कि कक्षा, कक्षा समूह, या स्टेज) ताकि करीबी संपर्क को सीमित किया जाए।
- गैर-आवश्यक कारणों से स्कूल आने की अनुमति नहीं है। यदि आप स्कूल पर किसी टीचर या स्टॉफ के किसी सदस्य से बात करना चाहते/चाहती हैं, तो आपको स्कूल को फोन करना चाहिए और एपॉइंटमेंट बुक करनी चाहिए। एपॉइंटमेंट या तो फोन या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी।
- इंटर स्कूल गतिविधियाँ स्थानीय समुदाय या क्षेत्र में ही होनी चाहिए। खेलकूद के कॉर्निवाल या विशाल भीड़ वाली समान गतिविधियाँ की अनुमति नहीं है जिसमें दो से अधिक स्कूल शामिल हों।
- सभी सामूहिक गायन (गायक-मंडलियों) और/या गायन संबंधी गतिविधियों, तथा साथ ही सामूहिक परिवेश में वाद्ययंत्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं है। हायर स्कूल सर्टिफिकेट (HSC) के विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रबंध लागू हैं।
- HSC विषय की पढाई करने वाले Year 11 और Year 12 के विद्यार्थी उन कक्षाओं/गतिविधियों के लिए उपस्थित होना जारी रख सकते हैं जो उन विषयों से सम्बन्धित हों जो केवल दूसरे कैंपस पर उपलब्ध हों। HSC विषय की पढाई न करने वाले Year 11 के विद्यार्थियों सहित सभी अन्य विद्यार्थियों को बाकी की Term 3 के लिए किसी अन्य कैंपस में भाग नहीं लेना चाहिए। TAFE और अन्य VET कार्यक्रम जारी रह सकते हैं।

हालाँकि 2021 के लिए किंडरगार्टन ओरिएन्टेशन (अभिविन्यास) स्थगित रहने जारी हैं, पर [department's website](#) (विभाग की वेबसाइट) पर सहायक सुझाव उपलब्ध हैं। ये सुझाव विद्यार्थियों को किंडरगार्टन जाना शुरू करने के उनके ट्रांज़िशन (अवस्थांतर) के लिए उत्साहित और व्यस्त बनाए रखने में सहायता देंगे।

परिवर्तनों के बारे में और अधिक पता लगाने के लिए अपने स्कूल के साथ एपॉइंटमेंट बुक करें।

टेलीफोन दुभाषिया सेवा

यदि आपको अधिक जानकारी की आवश्यकता है तो कृपया अपने स्कूल के प्रिंसिपल को फोन करें। यदि अपनी पूछताछ में सहायता करने के लिए आपको किसी दुभाषिए की जरूरत है तो कृपया टेलीफोन दुभाषिया सेवा को 131 450 पर फोन करें और अपनी भाषा में किसी दुभाषिए के लिए निवेदन करें। यह सेवा आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी।